



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 कार्तिक 1939 (श0)
(सं0 पटना 1019) पटना, मंगलवार, 31 अक्टूबर 2017

सं० वि०(27)पे०को०-(पुन०)22/2017-764
वित्त विभाग

प्रेषक,

शिव शंकर मिश्र,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

विषय :- राज्य सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को भुगतये चिकित्सा भत्ता से संबंध में स्पष्टीकरण।

प्रसंग:- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-754 एवं 755, दिनांक-20.10.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु निर्गत वित्त विभागीय संकल्प संख्या-754 एवं 755,

दिनांक 20.10.17 की क्रमशः कंडिका-4 एवं 5 में उल्लिखित है कि “पेंशनर/परिवार पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता के रूप में वह राशि अनुमान्य होगी जो राज्य के सेवारत कर्मियों के संदर्भ में सरकार द्वारा लागू की जायेगी।”

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8043, दिनांक 11.10.2017 द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों को प्रतिमाह रू० 1,000 (एक हजार) चिकित्सा भत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. अतः उपर्युक्त वित्त विभागीय संकल्पों के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को भी चिकित्सा भत्ता के रूप में प्रतिमाह रू० 1,000 (एक हजार) भुगतान होगा जो संकल्प (754/755) के निर्गत की तिथि 20.10.2017 से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिव शंकर मिश्र,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1019-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>